



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1933 (श०)
(सं० पटना 149) पटना, मंगलवार, 26 अप्रील 2011

सं० स्था०-02-01/11—716

गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

21 अप्रील 2011

विषय:—अराजपत्रित सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन प्रोन्नति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु समिति का गठन।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4685 वि०(2), दिनांक 25 जून 2003 एवं संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14 जुलाई 2010 के नियंत्राधीन रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना 2010 के आलोक में अराजपत्रित कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु समिति गठन। विभागीय संकल्प संख्या 324, दिनांक 15 फरवरी 2007 एवं कार्यालय आदेश संख्या 342, दिनांक 22 फरवरी 2011 द्वारा कर्मियों के प्रोन्नति/सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है।

- | | |
|---|---------|
| (1) ईखायुक्त, बिहार— | अध्यक्ष |
| (2) उप-सचिव/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग— | सदस्य |
| (3) संयुक्त निदेशक (विकास) बिहार, पटना— | सदस्य |
| (4) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वरीयतम पदाधिकारी (ईख विकास शाखा)— | सदस्य |

2. यह समिति वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प के निरूपित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगी। स्क्रीनिंग समिति बैठक प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा। यह समिति कर्मियों के प्रोन्नति/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के लाभ प्रदान करने में अनुशंसा करेगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

आदेश:—यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय, और इसकी प्रति विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार झा,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 149-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>